

समाजशास्त्र

अध्याय-3: सामाजिक संस्थाओं को समझना



सामाजिक संस्थाएँ

- सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है।
- सामाजिक संस्थाएँ सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्यमान होती हैं।

महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएँ हैं

अनौपचारिक :-

- परिवार
- विवाह
- नातेदारी

औपचारिक :-

- कानून
- शिक्षा

संस्था

संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है और उसके नियमित तथा निरंतर कार्यचालन को इन नियमों काम जाने बिना समझा नहीं जा सकता। संस्थाएँ व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती हैं, साथ ही ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं।

मूल परिवार

मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएँ पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य से बाहर कार्य करता है और दूसरा सदस्य घर व बच्चों की देखभाल करता है।

समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप

विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं :-

आवास / स्थान के आधार पर :-

- पितृस्थानिक
- मातृस्थानिक
- अधिकार और प्रभाव के आधार पर :-
- पितृसत्तात्मक
- मातृसत्तात्मक
- वंश के आधार पर :-
- पितृवंशीय
- मातृवंशीय
- जन्म का परिवार और प्रजनन का परिवार।
- एकल परिवार और संयुक्त परिवार।

महिला प्रधान घर / परिवार

- जब पुरुष शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं तो महिलाओं को हल चलाना पड़ता है और खेती के कार्यों का प्रबंध करना पड़ता है। कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण - पोषण करने वाली बन जाती हैं। ऐसे परिवारों को महिला प्रधान घर कहा जाता है।
- उदाहरण :- उत्तरी आंध्रप्रदेश में कोलम जनजाती समुदाय।

परिवार लिंगवादी होता है

- आज भी यही विश्वास है कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह लड़कियों की अपेक्षा की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार

लड़को पर 927 लड़कियाँ हैं। समृद्ध राज्यों जैसे- पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं।

- परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े संबंधों से जुड़ते व्यक्तियों का एक समूह है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परम्परा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं।

वैवाहिक नातेदार / विवाहमूलक

रक्त के माध्यम से बने नातेदारों को समरक्त नातेदार / रक्तमूलक नातेदार और विवाह के माध्यम से बने नातेदारों को वैवाहिक नातेदार / विवाहमूलक नातेदार कहते हैं।

विवाह संस्था

विवाह को दो वयस्क (स्त्री / पुरुष) व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

विवाह के विभिन्न स्वरूप

- **एक विवाह :-**
यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक ही साथी रखने तक अनुमति देता है।
- **बहु विवाह :-**
यह विवाह एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने तक अनुमति देता है।
- **बहु - पत्नी विवाह** (एक की अनेक पत्नियाँ)
- **बहु - पति विवाह** (एक पत्नी के अनेक पति)

अंतर्विवाह

- इस विवाह में व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है।
- **उदाहरण :-** जाति।

बहिर्विवाह

- इस विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है।
- उदाहरण :- गोत्र, जाति और नस्ल।

कार्य और आर्थिक जीवन

कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है।

आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

आधुनिक समाजों की अर्थव्यवस्था की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :-

- अत्याधिक जटिल श्रम में विभाजन।
- कार्य के स्थान में परिवर्तन।
- औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास।
- पूँजीपति उद्योगपतियों के कारखाने।
- विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन।
- प्रबंधक द्वारा कार्यों का निरीक्षण।
- श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाना और अनुशासन बनाए रखना।
- परस्पर अर्थव्यवस्था का असीमित विस्तार।

कार्य रूपांतरण

- औद्योगिक प्रक्रियाएँ सरल संक्रियाओं में विभाजित।
- थोक उत्पादन के लिए थोक बाजारों की आवश्यकता।
- उत्पादन की प्रक्रिया में नव परिवर्तन, स्वचालित उत्पादन की कड़ियों का निर्माण।

- उदार उत्पादन और कार्य विकेंद्रीकरण।

राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू

राजनीति संस्थाओं का सरोकार समाज के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं।

- **शक्ति :-**

शक्ति व्यक्तियों या समूहों द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की योग्यता है।

- **सत्ता :-**

शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है। सत्ता शक्ति का वह रूप है जिसे वैध होने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

- **राज्यविहीन समाज :-**

राज्यविहीन समाज ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो।

- **राज्य की संकल्पना :-**

राज्य की संकल्पना राज्य वहाँ विद्यमान होता है जहाँ सरकार का एक राजनीतिक तंत्र एक निश्चित क्षेत्र पर शासन करता है।

आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता, नागरिकता और अवसर राष्ट्रवादी विचारों द्वारा परिभाषित है :

प्रभुसत्ता

प्रभुसत्ता का अभिप्राय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर एक राज्य के अविवादित शासन से है।

- **उदाहरण :-**

- **नागरिकता के अधिकार :-**

1. **नागरिक अधिकार :** भाषण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
2. **राजनीतिक अधिकार :** चुनाव में शामिल होने का अधिकार।
3. **सामाजिक अधिकार :** स्वास्थ्य लाभ, समाज कल्याण, बेरोजगारी भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के अधिकारी।

धर्म

इमाइल दुर्खीम के अनुसार " धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों और व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बाँधती है जो उसी प्रकार विश्वासों और व्यवहारों को अभिव्यक्त करते हैं।

शिक्षा

- शिक्षा संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएँ शामिल हैं।
- शिक्षा स्तरीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है :-
 1. सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में जाते हैं।
 2. विद्यालयी शिक्षा, संभ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा करती है।
 3. विशेषाधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आ जाता है जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव कर सकते हैं।
 4. ऐसे और अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा सकते या विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं।

शिक्षा के प्रकार

- औपचारिक शिक्षा :- स्कूल, कालेज, शिक्षण संस्थान।
- अनौपचारिक शिक्षा :- घर, पड़ोस, पार्क, समाज।

नागरिक

उस सदस्यता से जुड़े अधिकार और कर्तव्यों दोनों के साथ एक नैतिक समुदाय का एक सदस्य।

श्रम विभाजन

- सभी समाजों में श्रम विभाजन का कुछ प्राथमिकता रूप है।

- इसमें कार्य, कार्यों की विशेषज्ञता शामिल है।
- विभिन्न व्यवसायों को एक उत्पादन प्रणाली के भीतरी संयुक्त किया जाता है।
- औद्योगिकीकरण के विकास के साथ, श्रम का विभाजन किसी भी प्रकार के उत्पादन प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है।
- आधुनिक दुनिया में श्रम विभाजन का रूप अंतराष्ट्रीय है।
- लिंग को समाज के बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है।
- व्यवहार के बारे में सामाजिक अपेक्षाएं प्रत्येक लिंग के सदस्यों के लिए उचित मानी जाती हैं।

अनुभवजन्य जाँच

सामाजिक अध्ययन के किसी दिए गए क्षेत्र में वास्तविक जांच की गई।

अंतविवाह

जब विवाह एक विशिष्ट जाती वर्ग या आदिवासी समूह के भीतर होता है।

बाह्य विवाह

जब विवाह समबंध समबंधों के एक निश्चित समूह के बाहर होता है।

विचारधारा

- साझा विचार या मान्यताएँ जो प्रमुख समूहों के हितों को न्यायसंगत साबित करने के लिए काम करते हैं।
- विचारधारा उन सभी समाजों में पाई जाती है। जिनमें समूहों के बीच व्यवस्थित और अंतनिर्हित असमानताएं होती हैं।
- विचारधारा की अवधारणा शक्ति के साथ निकटता से जुड़ती है, क्योंकि वैचारिक प्रणाली समूह की भिन्न शक्ति को वैध बनाने के लिए काम करती है।

वैधता

एक विश्वास जिसमें एक विशेष राजनीतिक आदेश सिर्फ सत्ता से वैधता प्राप्त है।

एकलविवाह

जब एक समय में एक स्त्री / पुरुष का एक ही पति अथवा एक पत्नी होती है।

बहुविवाह

एक समय में एक स्त्री अथवा पुरुष के एक से अधिक पति / पत्नी पाए जाते हैं।

बहुपति विवाह

जब एक से अधिक व्यक्ति एक महिला से विवाहित हैं।

बहुपत्नी विवाह

जब एक व्यक्ति से एक से अधिक महिला विवाहित होती हैं।

सेवा क्षेत्र

व्यापार उद्योग जैसे विनिर्मित सामानों की बजाय सेवाओं के उत्पादन से संबंधित उद्योग।

राज्य समाज

एक समाज जिसमें सरकार का औपचारिक तंत्र है।